

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

CIN L51909DL1984PLC019441



REGD. OFFICE : 1ST FLOOR, 14, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI-110055 PH : +91-11-23516567 FAX : +91-11-23553698

CORPORATE OFFICE : SUITE 522, 5TH FLOOR, GALLERIA TOWERS, DLF PHASE-IV, GURUGRAM-122009 (HR)

Ph. : +91-124-44754936, E-mail : info@cpil.com Website : www.cpil.com

To,
Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Date: 29/08/2020

BSE Scrip Code No.: 530309

Sub: Submission of Newspaper clipping under regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 read with Schedule III, regulation 44 and regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 please find enclosed herewith Newspaper Clipping for giving notice to the Members of the Company of the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on **Monday, 21st September, 2020 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means only, e-voting details, details regarding registration of email addresses, Book Closure for the purpose of AGM, published in the **“THE FINANCIAL EXPRESS”** (English Edition) and **“HARIBHOOMI”** (Hindi Edition) Newspaper dated 29th August, 2020.

The above information is also available on the website of the Company at www.cpil.com.

This is for your information and records. Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

**KOMAL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

Encl.: as above

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN L45101DL1967PLC004759
 Regd. Off: 115, Ansal Bhawan, 16, K G Marg, New Delhi - 110001
 Mob.: +91-9871053419, Tel: 011-23353550, 66302268-72,
 Website: www.ansalpi.com, E-mail id: shareholder.service@ansalpi.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).

In accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated the 12th May, 2020 and circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM and the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository Participant/ Depository.

The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will be available on the website of the Company www.ansalpi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents will also be available on the website of Link Time India Pvt. Ltd. ("LIPL") i.e. https://instavote.linktime.co.in.

The Board of Directors of the Company have not recommended any dividend for the financial year 2019-20.

Manner of getting e-mail registered- to receive notice of AGM and Annual Report 2019-20

- Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution is required) at shareholder.service@ansalpi.com or to Link Time India Private Ltd., (LIPL) at shamwanti.kushwah@linktime.co.in or shareholders can update e-mail address through the link viz. https://linktime.co.in/maleg/email_register.html.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/her e-mail address

Casting vote by members through remote e-voting/ e-voting system during the AGM

Members of the Company who are holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company as well as members who have not updated their e-mail address with the Depository Participant may obtain the login id and password for casting their vote (by logging on to LIPL's e-voting System https://instavote.linktime.co.in) through remote e-voting/ e-voting system during the AGM by following the instructions mentioned in the notes to the Notice of the 53rd AGM.

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
 Sd/-
Abdul Sami
 General Manager (Corporate Affairs)
 and Company Secretary
 Membership No. FCS 7135

Place: New Delhi
 Date : 28th August, 2020

VASCON

VASCON ENGINEERS LIMITED

CIN: L70100PN1986PLC175750

Registered and Corporate office : Vascon Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opposite Hyatt Hotel, Pune-Nagar Road, Pune - 411014. Tel.: +91 20 3056 2200, Fax : +91 20 30562600.

E-mail: corporate.officer@vascon.com, Website: www.vascon.com; www.bseindia.com; www.nseindia.com

35th ANNUAL GENERAL MEETING OF VASCON ENGINEERS LIMITED

Members are requested to note that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of Vascon Engineers Limited ("Vascon") will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11:30 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of 35th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as 'Circulars').

Electronic copies of the notice of the 35th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2019-20 will be sent to those Members whose email ID are registered with the Company/Depositories.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or at their email address: einward.ris@kfinetech.com

The Company has enabled the members to temporary update their email/ registration by addressing the link <https://karisma.kfinetech.com/emailreg/registration.aspx> for the limited purpose of receiving the Annual Report 2019-20 and the Notice of the 35th AGM (including e-voting instructions) electronically.

The Notice of 35th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at <https://www.vascon.com/investors/annual-reports> on the website of the RTA at <https://evoting.kfinetech.com> and on the website of BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>

The Company has fixed Tuesday, September 22, 2020 as the cut-off date for the purpose of determining the members eligible to vote on all resolutions set out in the notice.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of notice of Annual report.

For Vascon Engineers Limited
 Sd/-
Vibhuti Dani
 Company Secretary

Place : Pune
 Date : August 28, 2020

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or at their email address: einward.ris@kfinetech.com

The Company has enabled the members to temporary update their email/ registration by addressing the link <https://karisma.kfinetech.com/emailreg/registration.aspx> for the limited purpose of receiving the Annual Report 2019-20 and the Notice of the 35th AGM (including e-voting instructions) electronically.

The Notice of 35th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at <https://www.vascon.com/investors/annual-reports> on the website of the RTA at <https://evoting.kfinetech.com> and on the website of BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>

The Company has fixed Tuesday, September 22, 2020 as the cut-off date for the purpose of determining the members eligible to vote on all resolutions set out in the notice.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of notice of Annual report.

For Vascon Engineers Limited
 Sd/-
Vibhuti Dani
 Company Secretary

Place : Pune
 Date : August 28, 2020

NUTECH GLOBAL LIMITED

REGD. OFFICE: E-149, RICO INDUSTRIAL AREA BHLWARA-311001, (RAJASTHAN)
 TEL. NO. : +91 1482 260508, E-MAIL ID: info@nutechglobal.com, WEBSITE: www.nutechglobal.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020
 (Rs. in Lacs, except as stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		Unaudited	Not subject to review/audit	
		30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020
1.	Total Income from Operations (Net)	34.19	867.45	3621.62
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.97	-10.27
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.97	-10.27
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.70	-7.71
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-47.67	1.70	-7.71
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	320.37	320.37	320.37
7.	Reserve including Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	386.14
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	-1.49	0.05	-0.24
	1. Basic			
	2. Diluted			

Notes:-

- The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 28th August, 2020.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly ended Financial Results is available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and on the company's website, www.nutechglobal.com.

By the order of the Board
Rajeev Mukhija
 Director
 DIN: 00507367

Date : 28.08.2020
 Place : Bhlwara

BRAITHWAITE & CO. LIMITED
 (A Govt. of India Undertaking)
 5, Hide Road, Kolkata - 700 043

Tender No. BCL / PUR/CAPEX/Weigh Bridge /AW/ 2020

Sealed Tenders are invited in Two bid system for Supply, Installation & Commissioning of 1 no. 60 T new pit less type Weigh Bridge and revamping of existing 1 no. 20 ton Weigh Bridge in Angus Works of BCL as per tender conditions.

Last date of sale & submission of tender is 21 days, from the date of publication (both days inclusive). Interested parties may collect the tender document from Purchase Dept., Braithwaite & Co. Ltd., 5 Hide Road, Kolkata on all working days from 10.00 hrs to 14.30 hrs against payment of Rs.250/- (non refundable) by Bank Draft / Pay Order in favour of "Braithwaite & Co. Ltd.", payable at Kolkata, towards cost of tender document. Bidders who are registered with NSIC / MSME etc. for the tendered job are exempted from submission of cost of tender document. Tender documents can also be downloaded from our website www.braithwaiteindia.com and offer can be submitted as per tender conditions.

All TCNs & Corrigendum etc. will be notified in our website www.braithwaiteindia.com only.

Dy. Manager (Purchase)

EMA

EMA INDIA LIMITED

C-37, Pankaj Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur - 208022
 Ph: 0512-2691210-11; Fax: 0512-2691214
 E-mail: ema@ema.co.in; Website: www.ema.co.in
 CIN No.: L27201UP1971PLC030408

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 49th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of EMA India Limited will be held on Friday, 29th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and read with General Circular issued by the SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as 'Circulars').

Electronic copies of the notice of the 49th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2019-20 will be sent to those Members whose email ID are registered with the Company/Depositories.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or at their email address: einward.ris@kfinetech.com

The Company has enabled the members to temporary update their email/ registration by addressing the link <https://karisma.kfinetech.com/emailreg/registration.aspx> for the limited purpose of receiving the Annual Report 2019-20 and the Notice of the 49th AGM (including e-voting instructions) electronically.

The Notice of 49th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at <https://www.ema.co.in/investors/annual-reports> on the website of the RTA at <https://evoting.kfinetech.com> and on the website of BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>

The Company has fixed Tuesday, September 22, 2020 as the cut-off date for the purpose of determining the members eligible to vote on all resolutions set out in the notice.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of notice of Annual report.

For Vascon Engineers Limited
 Sd/-
Vibhuti Dani
 Company Secretary

Place : Pune
 Date : August 28, 2020

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 14, Rani Jhansi Road New Delhi-110055
 Corporate Office: 522, Fifth Floor, DLF Galleria Commercial Complex, DLF City Phase IV, Gurgaon, Haryana-122009
 CIN: L51909DL1984PLC019441
 Email : info@cpil.com, cs@cpil.com | Website : www.cpil.com

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

- The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Chandra Prabhu International Limited ("the Company") will be held on Monday, 21st September, 2020 at 11:00 A.M. (IST) via Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") ONLY to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.
- In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") dated 12th May, 2020, the Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for the FY 2019-20 on Friday, 28th August, 2020 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.
- Additionally, the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20, inter-alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 35th AGM is available on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
- In Compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meeting and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing "remote e-voting" and "e-voting" facility to its Members before and during the AGM in respect of the Ordinary Business and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:
 - The instruction for participating through VC/OAVM and process of remote e-voting before or during the AGM including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 35th AGM.
 - The remote e-voting shall commence on Friday, September 18, 2020 at 9:00 am IST.
 - The remote e-voting shall end on Sunday, September 20, 2020 at 5:00 pm IST.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 14, 2020.
- Any person, who acquires shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 14, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- Members may note that:
 - the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting system shall also be made available during the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/ during the AGM.
- Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA i.e. M/s Alankit Assignments Limited, Jhandewalan, New Delhi-110055 at rtat@alankit.com and;
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. In case of any clarification(s)/ grievance(s) connected with the electronic voting, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994545. Member who require any technical assistant before/during the AGM to access and participate in the meeting may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at pallavid@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994545.

Further the Board of Directors of the Company appointed Mr. Krishna Kumar Singh proprietor of M/s KKS & Associates, Company Secretaries for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Regulations, the Registrar of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2020 to Monday, September 21, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM.

By order of the Board
CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED
 Sd/-
(GAJRAJ JAIN)
 CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
 DIN- 00049199

Place: NEW DELHI
 Date: 28.08.2020

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केपिटल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
 BRANCH OFFICE: 28-C, MOULCHAND SHOPPING COMPLEX, DDA BUILDING, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)
Appendix -IV [See Rule - 8(1)]

whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the CENTRAL BANK OF INDIA, Defence Colony, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05.06.2020, calling upon the Borrowers: MR. VINAY S/O. SH. VED PRAKASH AND MR. SUDDHIR KUMAR S/O. MR. VINAY & GUARANTORS NAMELY NAVEEN VOHRA S/O. NARENDRA KUMAR VOHRA, to repay the amount mentioned in notice being Rs.38,74,590/- (Rupees Thirty Eight Lakhs Seventy Four Thousand Five Hundred Ninety Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers, guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 26.08.2020. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Defence Colony, New Delhi Branch, for an amount of Rs.38,74,590/- (Rupees Thirty Eight Lakhs Seventy Four Thousand Five Hundred Ninety Only) as on 05.06.2020 and interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Equitable Mortgage of property i.e. Third Floor with Roof / Terrace Rights, built on Land area measuring 85 Sq.yards of built up property bearing No.S-3/85, having Plot No.D-36, situated in the area of Village Nangli Jalib, Colony known as Old Mahavir Nagar, New Delhi-110018 standing in the name of Mr. Vinay S/o. Sh. Ved Prakash. Details of the Property bounded as under:-

On the North by: Other's Property
On the South by: Other's Property
On the East by: Road 20 Ft.
On the West by: Portion of the Property

PLACE: NEW DELHI
 DATE: 26.08.2020

Authorised Officer,
 Central Bank of India

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केपिटल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
 BRANCH OFFICE: 28-C, MOULCHAND SHOPPING COMPLEX, DDA BUILDING, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)
Appendix -IV [See Rule - 8(1)]

whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the CENTRAL BANK OF INDIA, Defence Colony, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05.06.2020, calling upon the Borrowers: MR. VEERENDRA MISHRA S/O. SH. RAMESH CHAND MISHRA, MRS. SANTOSH W/O. SH. RAMESH CHAND MISHRA AND GUARANTORS NAMELY JOHNEY SAHNI S/O. VED PRAKASH SAHNI, to repay the amount mentioned in notice being Rs.29,39,681/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand Six Hundred Eighty One Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers, guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 26.08.2020. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Defence Colony, New Delhi Branch, for an amount of Rs.29,39,681/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand Six Hundred Eighty One Only) as on 05.06.2020 and interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Equitable Mortgage of property i.e. Ground Floor without Roof / Terrace Rights, built on back side portion of free hold built up property bearing No.D-36, having new No.S-3/85, area measuring 65 Sq.yards, out of Khaska No.25, situated in the area of Village Nangli Jalab and the colony known as New Mahavir Nagar now known as Old Mahavir Nagar, New Delhi standing in the name of Smt. Santosh W/o. Sh. Ramesh Chander Mishra. Details of the Property bounded as under:-

On the North by: Other's Property
On the South by: Other's Property
On the East by: Remaining portion of said property
On the West by: Road 10 ft wide

PLACE: NEW DELHI
 DATE: 26.08.2020

Authorised Officer,
 Central Bank of India

EMA

EMA INDIA LIMITED

C-37, Pankaj Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur - 208022
 Ph: 0512-2691210-11; Fax: 0512-2691214
 E-mail: ema@ema.co.in; Website: www.ema.co.in
 CIN No.: L27201UP1971PLC030408

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 49th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of EMA India Limited will be held on Friday, 29th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and read with General Circular issued by the SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as 'Circulars').

Electronic copies of the notice of the 49th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2019-20 will be sent to those Members whose email ID are registered with the Company/Depositories.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or at their email address: einward.ris@kfinetech.com

The Company has enabled the members to temporary update their email/ registration by addressing the link <https://karisma.kfinetech.com/emailreg/registration.aspx> for the limited purpose of receiving the Annual Report 2019-20 and the Notice of the 49th AGM (including e-voting instructions) electronically.

The Notice of 49th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at <https://www.ema.co.in/investors/annual-reports> on the website of the RTA at <https://evoting.kfinetech.com> and on the website of BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>

The Company has fixed Tuesday, September 22, 2020 as the cut-off date for the purpose of determining the members eligible to vote on all resolutions set out in the notice.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of notice of Annual report.

For Vascon Engineers Limited
 Sd/-
Vibhuti Dani
 Company Secretary

Place : Pune
 Date : August 28, 2020

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 14, Rani Jhansi Road New Delhi-110055
 Corporate Office: 522, Fifth Floor, DLF Galleria Commercial Complex, DLF City Phase IV, Gurgaon, Haryana-122009
 CIN: L51909DL1984PLC019441
 Email : info@cpil.com, cs@cpil.com | Website : www.cpil.com

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

- The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Chandra Prabhu International Limited ("the Company") will be held on Monday, 21st September, 2020 at 11:00 A.M. (IST) via Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") ONLY to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.
- In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") dated 12th May, 2020, the Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for the FY 2019-20 on Friday, 28th August, 2020 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.
- Additionally, the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20, inter-alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 35th AGM is available on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
- In Compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meeting and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing "remote e-voting" and "e-voting" facility to its Members before and during the AGM in respect of the Ordinary Business and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:
 - The instruction for participating through VC/OAVM and process of remote e-voting before or during the AGM including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 35th AGM.
 - The remote e-voting shall commence on Friday, September 18,

